



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1932 (श0)
(सं0 पटना 700) पटना, बुधवार, 13 अक्टूबर 2010

सं0 एम04-41/06—10486/वि(2)

वित्त विभाग

संकल्प

23 सितम्बर 2010

विषय:—सचिवालय मुद्रणालय के प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के विस्तार के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा स्थायी अग्रिम की व्यवस्था ऐसे मामलों के निष्पादन के लिये की जाती है, जहाँ राशि की तुरत आवश्यकता हो, और राजकोष से राशि की निकासी के लिए समय नहीं हो। ऐसी स्थिति बार-बार आती रहती है, जहाँ नगद राजकोष से राशि प्राप्त करना संभव नहीं होता है।

2. वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय द्वारा विधान मंडलीय कार्यो सहित अन्य विभागीय कार्यो के निष्पादन एवं उनके कार्यालय के दैनिक आवश्यकताओं के वहन हेतु 25,000 (पच्चीस हजार) रु0 की स्थायी अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. प्रदत्त शक्तियों के अनुसार राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाई अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय द्वारा की जायेगी। इस राशि के व्यय का विकलन लोक लेखा-2, शीर्ष-8672-स्थायी नगद अग्रदाय(व्यय)-101 सिविल में होगा।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सचिवालय मुद्रणालय सहित प्रेस शाखा वित्त विभाग तथा महालेखाकार, बिहार के सूचनार्थ भेजी जाए ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

निर्मल कुमार सिंहानियाँ,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 700-571+20-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>